



राजपत्र, हिमाचल प्रदेश

हिमाचल प्रदेश राज्य शासन द्वारा प्रकाशित

शिमला बुधवार 21 सितम्बर, 2011/30 भाद्रपद, 1933

हिमाचल प्रदेश सरकार

TOWN AND COUNTRY PLANNING DEPARTMENT

NOTIFICATION

Shimla-2, the 20th September, 2011

No. TCP-F(5)-5/2010.—The Governor of Himachal Pradesh is pleased to constitute 'Heritage Advisory Committee' with following members, as required under regulation 10.4.14 (iv) of this Department Notification No. TCP-F(5)-5/2010 dated 28.2.2011.

Official Members :

The Director,
Town and Country Planning,
Himachal Pradesh, Shimla-9.

Chairman.

Non-Official Members :

(i) Sh. R.J. Vasavada,
Professor and Head Centre
for Environmental Planning and
Technology, Ahmadabad, Gujarat.

Member.

(ii) Sh. Balvinder Singh,
Chairman, BOC and
Head, School of Planning and
Architecture, Amritsar, Punjab.

Member.

The committee shall convene its meeting once in three months. The non official members of the Heritage Advisory Committee shall be paid such allowances as admissible under rules.

By order,
Sd/-
Pr. Secretary (TCP).

न्यायालय श्री विजय कुमार धीमान, सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी, भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री प्रेम लाल पुत्र श्री गैँडा, हाल निवासी गांव डुंग, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थी ।

बनाम

1. सर्वश्री दीनू राम पुत्र पुन्नू, गांव सेरी, डा0 व तहसील भरमौर, जिला चम्बा, 2. रूप लाल पुत्र गैँडा, 3. हरि लाल पुत्र कर्मू, हाल निवासीयान गांव डुंग, डा0 कोहलडी, तहसील व जिला चम्बा, 4. मदन लाल, 5. ओम राज व 6. गोविन्द राज पुत्रान जगता, निवासीयान गांव सेरी, डा0 व तहसील भरमौर, जिला चम्बा (हि0 प्र0) . . प्रतिवादीगण ।

दरखास्त तकसीम भूमि खाता नं0 32/41, खसरा नम्बर कित्ता 25, रकबा तादादी 6-5 बीघा वाक्या मुहाल सेरी परगना व तहसील भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश ।

उपरोक्त मुकद्दमा तकसीम भूमि प्रार्थी प्रेम लाल पुत्र श्री गैँडा ने दिनांक 1-10-2005 को इस न्यायालय में दायर की थी कि उसकी मुहाल सेरी, तहसील भरमौर, जिला चम्बा की तकसीम की जाए। इस बारा फरीकैन दोयम को कई बार इस न्यायालय द्वारा समन/नोटिस भेजे गए परन्तु वह हाजिर अदालत नहीं हो रहे हैं और न ही उनके समन की साधारण तौर पर तामील हो रही है।

अतः सर्वसाधारण जनता को राजपत्र इश्तहार के माध्यम से सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 15-11-2011 को प्रातः 10.00 बजे इस अदालत में असालतन या वकालतन हाजिर होकर अपना उजर व एतराज पेश कर सकते हैं अन्यथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाएगी।

आज दिनांक 12-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

विजय कुमार धीमान,
सहायक समाहर्ता प्रथम श्रेणी,
भरमौर, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री रविन्द्र कुमार सुपुत्र स्व0 श्री प्रभ दयाल, निवासी गांव चकरा, डाकघर शेरपुर, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना—पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी रविन्द्र कुमार ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना—पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम रविन्द्र कुमार है, लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चकरा पटवार वृत्त शेरपुर में गलती से रविन्द्र सिंह दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी रविन्द्र कुमार के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 10-10-2011 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 24-8-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्री भगत राम सुपुत्र स्व० श्री मुन्शी राम, निवासी गांव चलटूहनी, डाकघर बलेरा, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

विषय.—प्रार्थना-पत्र बराए नाम दुरुस्ती बारे।

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसका सही नाम भगत राम है लेकिन राजस्व विभाग के मुहाल चलटूहनी पटवार वृत्त बलेरा में गलती से भगतो दर्ज है, जिसकी दुरुस्ती की जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थी भगत राम के नाम की दुरुस्ती बारे यदि किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी दिनांक 10-10-2011 को हाजिर आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम दुरुस्ती के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 1-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित/—,
सहायक समाहर्ता द्वितीय वर्ग,
डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री जीवा नन्द, कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश

श्रीमती रचना देवी पत्नी श्री गरगेश कुमार, निवासी गांव ढलोग, डाकघर बनीखेत, तहसील डलहौजी, जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

विषय.—प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969.

उपरोक्त प्रार्थिया ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फी इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र अरुण ठाकुर की जन्म तिथि 11-3-2011 है, जोकि ग्राम पंचायत ढलोग के रिकार्ड में दर्ज न है, जिसे दर्ज किया जावे।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण जनता को बजरिया इश्तहार सूचित किया जाता है कि प्रार्थिया के पुत्र अरुण ठाकुर की जन्म तिथि ग्राम पंचायत ढलोग के रिकार्ड में दर्ज करने बारे यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 10-10-2011 को असालतन या वकालतन अदालत अधोहस्ताक्षरी आकर अपना एतराज दर्ज करवा सकता है। कोई एतराज दर्ज न होने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जा करके नाम व जन्म तिथि दर्ज करने के आदेश दे दिए जाएंगे।

आज दिनांक 9-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

जीवा नन्द,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, डलहौजी,
जिला चम्बा, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री कुलदीप सिंह पटियाल, उप-पंजीकाध्यक्ष, भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश

श्री रवि कुमार पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव झरलोग उपरला, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

1. आम जनता, 2. उषा देवी पुत्री, 3. मीरा देवी पुत्री, 4. पानो देवी बेवा श्री जगत राम, निवासी गांव झरलोग उपरला, मौजा मैहलता, तह0 भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

विषय.—वसीयत पंजीकरण जेर धारा 40-41.

श्री रवि कुमार पुत्र श्री जगत राम, निवासी गांव झरलोग उपरला, मौजा मैहलता, तहसील भोरंज, जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित दरखास्त गुजारी है कि उसके पिता स्व0 श्री जगत राम ने दिनांक 18-3-2011 को उसके नाम एक वसीयतनामा तहरीर करवा रखा है जोकि अपंजीकृत है जिसे कि वह अब पंजीकृत करवाना चाहता है।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनात को सूचित किया जाता है कि श्री जगत राम उपरोक्त द्वारा तहरीर की गई वसीयत को पंजीकरण करने बारे किसी को कोई उजर/एतराज हो तो वह दिनांक 3-10-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन हाजिर अदालत आकर एतराज पेश कर सकता है। हाजिर न आने की सूरत में एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर आगामी कार्यवाही की जाएगी। उसके बाद का उजर जेर समायत न होगा।

आज दिनांक 14-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

कुलदीप सिंह पटियाल,
उप-पंजीकाध्यक्ष, भोरंज,
जिला हमीरपुर, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री बी0 डी0 आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि0 प्र0)

केस नं0 149-एन0टी0 ऑफ 2011

तारीख पेशी 7-10-2011

श्री मोहर सिंह पुत्र श्री जंगलू, निवासी वारनाल, डाकघर वच्छूर, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसके पुत्र मनोज कुमार का जन्म दिनांक 21-2-2007 को हुआ है जोकि ग्राम पंचायत टील के अभिलेख में दर्ज न है, जिसे अब दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि मनोज कुमार की जन्म तिथि ग्राम पंचायत टील के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 7-10-2011 को असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर जन्म तिथि को इन्द्राज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 6-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री बी० डी० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० 150-एन०टी० ऑफ 2011

तारीख पेशी 7-10-2011

श्री गुलाब सिंह पुत्र श्री धनी राम, निवासी जौरी, डाकघर पनिहार, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री कुमारी रंजना का जन्म दिनांक 27-4-2008 को हुआ है जोकि ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में दर्ज न है, जिसे अब दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि कुमारी रंजना की जन्म तिथि ग्राम पंचायत गोपालपुर के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 7-10-2011 को असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य न होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल लाई में जाकर जन्म तिथि को इन्द्राज करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

आज दिनांक 6-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

ब अदालत श्री बी० डी० आजाद, कार्यकारी दण्डाधिकारी, बन्जार, जिला कुल्लू (हि० प्र०)

केस नं० 151-एन०टी० ऑफ 2011

तारीख पेशी 7-10-2011

श्री महेश वर्मा पुत्र श्री केहर सिंह, निवासी खण्डरागी, डाकघर खण्डरागी, तहसील बन्जार, जिला कुल्लू, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवम् मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969.

उपरोक्त प्रार्थी ने अधोहस्ताक्षरी की अदालत में प्रार्थना-पत्र मय ब्यान हल्फिया इस आशय से गुजारा है कि उसकी पुत्री ज्योतिका वर्मा का जन्म दिनांक 9-3-2008 को हुआ है जोकि ग्राम पंचायत कोठी चैहणी के अभिलेख में दर्ज न है, जिसे अब दर्ज किया जाए।

इस सम्बन्ध में सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि ज्योतिका वर्मा की जन्म तिथि ग्राम पंचायत कोठी चैहणी के अभिलेख में दर्ज करने में यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो वह दिनांक 7-10-2011 को असालतन या वकालतन अदालत में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करें। बाद गुजरने तारीख किसी भी प्रकार का एतराज मान्य नहीं होगा तथा एकतरफा कार्यवाही अमल लाई में जाकर जन्म तिथि को इन्द्राज करने का आदेश पारित किया जाएगा।

आज दिनांक 6-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

बी० डी० आजाद,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
बन्जार, जिला कुल्लू (हि० प्र०)।

**In the Court of Shri Balbir Thakur (HAS), Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional
Magistrate, Manali, District Kullu, Himachal Pradesh**

In the matter of :

Shri Tsewang Tharchin s/o Shri Skarma Tamdul, r/o Men-Tseekhang, H. No. 107, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Shrimati Tsering Wangmo d/o Shri Sither Phuntsok, r/o Men-Tseekhang, H. No. 107, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.).

Versus

General Public

An application for registration of marriage under Special Marriage Act, 1954.

Whereas Shri Tsewang Tharchin s/o Shri Skarma Tamdul, r/o Men-Tseekhang, H. No. 107, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) and Shrimati Tsering Wangmo d/o Shri Sither Phuntsok, r/o Men-Tseekhang, H. No. 107, Ward No. 7, Gompa Road Manali, Tehsil Manali, District Kullu (H.P.) has presented an application on 6-9-2011 in this Court for the registration of marriage under Special Marriage Act, 1954. Hence this proclamation is hereby issued for the information of general public that if any person has any objection for the

registration of the above marriage can appear in this Court on 5-10-2011 at 2.00 P. M. to object registration of above marriage personally or through an authorized agent failing which this marriage will be registered under this Act, 1954 accordingly.

Given under my hand and seal of the Court on 6th day of September, 2011.

Seal.

BALBIR THAKUR (HAS),
Special Marriage Officer-cum-Sub-Divisional Magistrate,
Manali, District Kullu, Himachal Pradesh.

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 13-10-2011

उनवान मुकद्दमा : नाम दुरुस्ती।

श्री ब्रह्म दास पुत्र श्री रेलू, निवासी व डाकघर सन्धोल, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0 प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम।

श्री ब्रह्म दास ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल सन्धोल के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम ब्रह्मा लिखा गया है जो गलत है मेरा वास्तविक नाम ब्रह्म दास है। इसकी दुरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इशतहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दुरुस्ती करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-10-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दुरुस्ती करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इशतहार आज दिनांक 7-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—

सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 13-10-2011

उनवान मुकद्दमा : नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने बारे।

श्री प्रदीप कुमार पुत्र श्री लेख राम, निवासी व डाकघर कोटुवा, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी (हि0प्र0)

. . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम।

श्री प्रदीप कुमार ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि उसकी लड़की आंचल का जन्म, तिथि 30-6-2007 को हुआ है। अज्ञानतावश वह अपनी लड़की का नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज न करवा सका है। अतः इसे दर्ज करवाने के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम व जन्म तिथि दर्ज करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 13-10-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम व जन्म तिथि पंचायत अभिलेख में दर्ज करने का आदेश पारित कर दिये जाएंगे।

यह इश्तहार आज दिनांक 7-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार, सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश

तारीख पेशी : 13-10-2011

उनवान मुकद्दमा : नाम दरुस्ती।

श्री तुलसी दास पुत्र श्री शंकर दास, निवासी खजुरटी, डाकघर चोलंगढ, तहसील सन्धोल, जिला मण्डी
(हि० प्र०) . . प्रार्थी।

बनाम

आम जनता

. . फरीकदोयम।

श्री तुलसी दास ने इस अदालत में शपथ-पत्र सहित मुकद्दमा दायर किया है कि मुहाल खजुरटी के राजस्व अभिलेख में मेरा नाम तुलसी लिखा गया है जो गलत है मेरा वास्तविक नाम तुलसी दास है। इसकी दरुस्ती के आदेश चाहे हैं।

अतः इस इश्तहार द्वारा आम जनता को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उक्त नाम दरुस्ती करने बारा कोई उजर व एतराज हो तो वह असालतन या वकालतन तारीख पेशी दिनांक 10-10-2011 को सुबह 10.00 बजे हाजिर अदालत होकर अपना उजर पेश कर सकता है। बसूरत गैर-हाजरी एकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जाकर नाम दरुस्ती करने का आदेश पारित कर दिया जाएगा।

यह इश्तहार आज दिनांक 7-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर सहित अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

हस्ताक्षरित /—
सहायक समाहर्ता द्वितीय श्रेणी एवं नायब तहसीलदार,
सन्धोल, जिला मण्डी, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस० एल० बन्सल, कार्यकारी दण्डाधिकारी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला,
हिमाचल प्रदेश

श्रीमती उत्तमी देवी उर्फ चुलकी देवी विधवा श्री वीर सिंह, निवासी गांव व डा० मझेवली, ग्राम पंचायत
दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश . . प्रार्थिया।

बनाम

आम जनता

. . प्रतिवादी।

प्रार्थना-पत्र जेर धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम, 1969 बाबत नाम दुरुस्ती।

नोटिस बनाम आम जनता।

श्रीमती उत्तमी देवी उर्फ चुलकी देवी विधवा श्री वीर सिंह, निवासी गांव व डा0 मझेवली, ग्राम पंचायत दोफदा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश ने इस अदालत में प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र गुजारा है कि प्रार्थिया का नाम स्थानीय ग्राम पंचायत दोफदा में चुलकी देवी दर्ज है जो प्रार्थिया का उप नाम है। प्रार्थिया का नाम पैंशन के दस्तावेज व फोटो पहचान-पत्र जो भारत निर्वाचन आयोग द्वारा जारी है में भी सही नाम उत्तमी देवी दर्ज है। अतः प्रार्थिया अपना नाम चुलकी देवी के स्थान पर उत्तमी देवी उर्फ चुलकी देवी ग्राम पंचायत दोफदा के परिवार रजिस्टर में दुरुस्त करवाना चाहती है।

अतः इस इशतहार द्वारा सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि यदि किसी व्यक्ति को उपरोक्त उत्तमी देवी उर्फ चुलकी देवी का नाम पंचायत अभिलेख में दुरुस्त करने बारा कोई उजर या एतराज हो तो वह दिनांक 10-10-2011 को या इससे पूर्व अदालत हजा में हाजिर आकर अपनी आपत्ति दर्ज करवा सकता है। बाद गुजरने मियाद कोई भी उजर/एतराज काबिले समायत न होगा तथा नियमानुसार पंचायत अभिलेख में प्रार्थिया का नाम दुरुस्त करने के आदेश पारित कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 8-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत द्वारा जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,
कार्यकारी दण्डाधिकारी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री एस0 एल0 बन्सल, सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी, रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश

नं0 मुकद्दमा : 87/2010

तारीख दायर : 8-7-2010

श्री मान दास पुत्र श्री जोबन दास, ग्राम जबाया, चक दरशाई, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) प्रार्थी।

बनाम

1. श्रीमती समित्रा देवी पुत्री श्री आत्मा राम, निवासी दरशाई, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
2. श्री बेली राम पुत्र श्री बनी, निवासी गांव मधारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
3. श्री रणवीर सिंह पुत्र बनी, निवासी गांव मधारा, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
4. श्रीमती सती पुत्री श्री सूपी, निवासी गांव मझेवली, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
5. श्री अशोक कुमार पुत्र श्री गोपाल सिंह, निवासी गांव दरशाई हालावाद गांव खनेरी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
6. श्रीमती सती पुत्री श्री जोबन दास, निवासी गांव जबाया, हालावाद गांव कमसारी, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
7. श्रीमती कृष्णी पुत्री श्री सुंपी पुत्री श्री जोबन दास, निवासी गांव जबाया, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
8. श्रीमती गुड्डी, पुत्री सुंपी पुत्री जोबन दास, निवासी गांव जबाया, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

9. श्रीमती राधू पुत्री सूपी पुत्री जोबन दास, निवासी गांव जबाया, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
10. श्रीमती सिधू पुत्री सूपी पुत्री जोबन दास, निवासी गांव जबाया, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
11. श्रीमती संतोष कुमारी पत्नी वीर सिंह, निवासी गांव कशाग, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
12. श्री राम सिंह पुत्र कुम्भ दास, निवासी गांव जखेह, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
13. श्रीमती विमला देवी पत्नी वीरेन्द्र थापर, निवासी गांव खनोरटू, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
14. श्रीमती विमला देवी पत्नी गोवर्धन सिंह, निवासी गांव सरला परोग, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।
15. श्रीमती लीला पाकला पत्नी चेतन पाकला, निवासी गांव भराला, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)। प्रतिवादी।

दरखास्त तकसीम जेर धारा 123 हि0 प्र0 भू0 रा0 अ0 1954 बाबत अराजी खाता/खतौनी नं0 8/31 ता 51, किते 71, रकबा तादादी 04-77-76 है0, वाका चक दरशाई, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0)।

नोटिस बनाम आम जनता।

प्रार्थी श्री मान दास पुत्र श्री जोबन दास, ग्राम जबाया, चक दरशाई, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला ने अराजी खाता/खतौनी नं0 8/31 ता 51, किते 71, रकबा तादादी 04-77-76 है0, वाका चक दरशाई, तहसील रामपुर बुशैहर, जिला शिमला (हि0 प्र0) का तकसीम प्रकरण इस अदालत में विचाराधीन है। प्रतिवादी नं0 1 ता 15 को इस अदालत द्वारा समन जारी किया गया परन्तु कई बार समन जारी किये जाने के बाद भी तामील असालतन नहीं हो पा रही है जिस कारण इस अदालत को यकीन हो गया है कि इनकी तामील साधारण तरीके से होनी सम्भव प्रतीत नहीं होती है। तामील असालन न होने के कारण तकसीम प्रकरण लम्बित चला आ रहा है। अतः प्रतिवादी नं0 1 ता 15 को इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि वे दिनांक 14-10-2011 को प्रातः 10.00 बजे असालतन या वकालतन पैरवी मुकद्दमा हेतु हाजिर अदालत आये। हाजिर न आने की सूरत में यह समझा जावेगा कि आपको इस खाता की तकसीम बारा किसी भी प्रकार का उजर व एतराज नहीं है तथा यकतरफा कार्यवाही अमल में लाई जावेगी।

आज दिनांक 8-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी किया गया।

मोहर।

एस0 एल0 बन्सल,
सहायक समाहर्ता, प्रथम श्रेणी,
रामपुर बुशैहर, जिला शिमला, हिमाचल प्रदेश।

ब अदालत श्री के0 एस0 लाल्टा, कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश

श्री दिनेश गुप्ता पुत्र श्री पुन्नू राम, निवासी जेल कलौनी, नाहन, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

बनाम

आम जनता

उपरोक्त प्रार्थना-पत्र श्री दिनेश गुप्ता पुत्र श्री पुन्नू राम, निवासी जेल कलौनी, तहसील नाहन, जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश ने अधीन धारा 13 (3) जन्म एवं मृत्यु पंजीकरण अधिनियम 1969 के अन्तर्गत प्रस्तुत करके प्रार्थना की है कि उनके पुत्र बासू गुप्ता की जन्म तिथि 16-9-1993 है, का नाम नगर पालिका नाहन के रिकार्ड में दर्ज नहीं करवाया गया है। जिसे प्रार्थी अब दर्ज करवाना चाहता है।

अतः सर्वसाधारण का इस इशतहार द्वारा सूचित किया जाता है कि इस सम्बन्ध में यदि किसी व्यक्ति को उजर या एतराज हो तो वह स्वयं अथवा अपने प्रतिनिधि द्वारा मिति 6-10-2011 को सुबह दस बजे इस अदालत में उपस्थित आकर प्रस्तुत करें बसूरत दीगर वासू गुप्ता का नाम एवं जन्म तिथि को दर्ज करने के आदेश जारी कर दिए जाएंगे।

आज दिनांक 6-9-2011 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी हुआ।

मोहर।

के0 एस0 लाल्टा,
कार्यकारी दण्डाधिकारी, नाहन,
जिला सिरमौर, हिमाचल प्रदेश।

गृह विभाग

अधिसूचना

शिमला, 6 जुलाई, 2010

संख्या गृह(ए)एफ (15)-2/94-11.—राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश, मैनोवर फील्ड फायरिंग एवं अर्टलरी अभ्यास अधिनियम, 1938 (1938 का पांचवा अधिनियम) की धारा-9 की उप धारा-3 के अन्तर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए जैसा कि उक्त अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-4 में अपेक्षित है, इस अधिनियम की धारा-9 की उप धारा-1 के अधीन निम्नलिखित अनुसूची में दर्शाये गए क्षेत्र में जो कि हिमाचल प्रदेश सरकार की समसंख्यक अधिसूचना दिनांक 17.08.2009 जो हिमाचल प्रदेश राजपत्र (असाधारण) दिनांक 19.06.2010 के अंक में प्रकाशित हुई है में निर्दिष्ट किये गए क्षेत्र एक्स भाग में निम्नलिखित तिथियों के दौरान परिभाषित क्षेत्र में फायरिंग तथा अर्टलरी अभ्यास हेतु प्राधिकृत करने के निश्चय से हिमाचल प्रदेश सरकार के राजपत्र (असाधारण) में इस आशय से यह अधिसूचना उन लोगों की सूचना हेतु जो इसके द्वारा प्रभावित होने सम्भावित हो, हेतु सहर्ष प्रकाशित करने हेतु आदेश देते हैं:—

अनुसूची

नाम	खसरा नं०	कोठी	तहसील	क्षेत्र
धार करजम्बा	7 / 1	गियू	तहसील स्पिति जिला लाहौल एवं स्पिति।	2.99.75.00 हैक्टर

समय सारणी

(a)	जुलाई, 2010 1 से 15	(g)	जनवरी, 2011 1 से 15
(b)	अगस्त, 2010 1 से 15	(h)	फरवरी, 2011 1 से 15
(c)	सितम्बर, 2010 1 से 15	(i)	मार्च, 2011 1 से 15
(d)	अक्टूबर, 2010 1 से 15	(j)	अप्रैल, 2011 1 से 15

(e)	नवम्बर, 2010 1 से 15	(k)	मई, 2011 1 से 15
(f)	दिसम्बर, 2010 1 से 15	(l)	जून, 2011 1 से 15

टिप्पणी.— यदि उपरोक्त अंकित तिथियों में अवकाश हो तो अगले कार्य दिवस फिल्ड फायरिंग तथा तोपखाना अभ्यास किया जाये।

आदेश द्वारा,
हस्ताक्षरित /—
प्रधान सचिव (गृह)।